

Roll No.-----

Paper Code

6 7 4

(To be filled in the
OMR Sheet)

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज
Question Booklet Series

B

B.A.LL.B (First Semester) Examination, April-2022

B.A.LL.B 104

Economics-I (Economics Theory)

(For Regular, Ex & Back Paper Students)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक—पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
- महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

- | | |
|--|--|
| <p>1. In imperfect competition, in the state of equilibrium profit is :</p> <p>(A) Normal</p> <p>(B) Maximum</p> <p>(C) Less than normal</p> <p>(D) More than normal</p> | <p>1. अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की दशा में लाभ मिलता है :</p> <p>(A) सामान्य</p> <p>(B) अधिकतम</p> <p>(C) सामान्य से कम</p> <p>(D) सामान्य से अधिक</p> |
| <p>2. The main characteristic of monopolistic competition is :</p> <p>(A) Product differentiation</p> <p>(B) Free entry of firms</p> <p>(C) More selling costs</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>2. एकाधिकृत प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता है :</p> <p>(A) वस्तु-विभेद होना</p> <p>(B) फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश</p> <p>(C) अधिक विक्रय लागतें</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |
| <p>3. The propounder of the concept of group under monopolistic competition was :</p> <p>(A) Hicks</p> <p>(B) Mrs. J. Robinson</p> <p>(C) E.H. Chamberlin</p> <p>(D) Leftwitch</p> | <p>3. एकाधिकृत प्रतियोगिता के अन्तर्गत 'समूह का विचार' के प्रतिपादक थे :</p> <p>(A) हिक्स</p> <p>(B) श्रीमती जे० रॉबिन्सन</p> <p>(C) ई० एच० चैम्बरलिन</p> <p>(D) लेफ्टविच</p> |
| <p>4. In which type of market firms are price-maker :</p> <p>(A) Perfect competition</p> <p>(B) Imperfect competition</p> <p>(C) Monopoly</p> <p>(D) Oligopoly</p> | <p>4. किस प्रकार के बाजार की स्थिति में फर्म कीमत-निर्माता होती हैं :</p> <p>(A) पूर्ण प्रतियोगिता</p> <p>(B) अपूर्ण प्रतियोगिता</p> <p>(C) एकाधिकार</p> <p>(D) अल्पाधिकार</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>5. 'A monopoly firm holds whole control over supply.' This statement is :</p> <p>(A) True</p> <p>(B) False</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of these</p> | <p>5. 'एक एकाधिकारी फर्म का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है।' यह कथन है :</p> <p>(A) सत्य</p> <p>(B) असत्य</p> <p>(C) दोनों (A) एवं (B)</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>6. The author of 'the Economics of imperfect competition' is :</p> <p>(A) Marshal</p> <p>(B) Smt. J. Robinson</p> <p>(C) Leftwitch</p> <p>(D) Stigler</p> | <p>6. 'द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्पेक्ट कॉम्पिटिशन' के लेखक है :</p> <p>(A) मार्शल</p> <p>(B) श्रीमती जे० रॉबिन्सन</p> <p>(C) लेफ्टविच</p> <p>(D) स्टिगलर</p> |
| <p>7. In which type of market, there is perfect mobility in factors of production :</p> <p>(A) Perfect competition</p> <p>(B) Imperfect competition</p> <p>(C) Monopoly</p> <p>(D) Discriminating monopoly</p> | <p>7. किस प्रकार के बाजार में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पायी जाती है :</p> <p>(A) पूर्ण प्रतियोगिता</p> <p>(B) अपूर्ण प्रतियोगिता</p> <p>(C) एकाधिकार</p> <p>(D) विभेदात्मक एकाधिकार</p> |
| <p>8. Fixed costs are called :</p> <p>(A) Supplementary cost</p> <p>(B) Variable cost</p> <p>(C) Real cost</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>8. स्थिर लागतों को कहते हैं :</p> <p>(A) पूरक लागत</p> <p>(B) परिवर्तनशील लागत</p> <p>(C) वास्तविक लागत</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>9. Total money cost means :</p> <p>(A) Total explicit costs</p> <p>(B) Total implicit costs</p> <p>(C) Normal costs</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>9. कुल मौद्रिक लागत का अभिप्राय है :</p> <p>(A) कुल स्पष्ट लागतें</p> <p>(B) कुल अस्पष्ट लागतें</p> <p>(C) सामान्य लागतें</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>10. Market price of normal goods are determined by :</p> <p>(A) Demand</p> <p>(B) Supply</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of these</p> | <p>10. सामान्य वस्तुओं की बाजार कीमत निर्धारित होती है :</p> <p>(A) मांग द्वारा</p> <p>(B) पूर्ति द्वारा</p> <p>(C) दोनों (A) एवं (B)</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>11. The prices determined in the short period is called :</p> <p>(A) Normal price</p> <p>(B) Market price</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of these</p> | <p>11. अल्पकाल में निर्धारित कीमतों को कहते हैं :</p> <p>(A) सामान्य कीमत</p> <p>(B) बाजार कीमत</p> <p>(C) उपरोक्त दोनों (A) एवं (B)</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>12. The most important factor for market is :</p> <p>(A) Presence of buyers and sellers</p> <p>(B) Area of market</p> <p>(C) Competition</p> <p>(D) Availability of different goods</p> | <p>12. किसी भी बाजार के सर्वाधिक आवश्यक तत्व है :</p> <p>(A) क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति</p> <p>(B) बाजार का स्थान</p> <p>(C) स्पर्धात्मक दशा</p> <p>(D) विभिन्न वस्तुओं का होना</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>13. Due to increase in production, the difference between total cost and total variable cost :</p> <p>(A) Decreases</p> <p>(B) Increases</p> <p>(C) Remains stable</p> <p>(D) None of these</p> | <p>13. उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर :</p> <p>(A) घटता जाता है</p> <p>(B) बढ़ता जाता है</p> <p>(C) स्थिर रहता है</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>14. After closing the production :</p> <p>(A) Fixed cost increases</p> <p>(B) Variable cost decreases</p> <p>(C) Variable cost becomes zero</p> <p>(D) Fixed costs become zero</p> | <p>14. उत्पादन बंद होने के पश्चात् :</p> <p>(A) स्थिर लागतें बढ़ती हैं</p> <p>(B) परिवर्तनशील लागतें कम होती हैं</p> <p>(C) परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं</p> <p>(D) स्थिर लागतें शून्य होती हैं</p> |
| <p>15. The problem of choice is :</p> <p>(A) An economic problem</p> <p>(B) A non-economic problem</p> <p>(C) A social problem</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>15. चुनाव की समस्या है :</p> <p>(A) एक आर्थिक समस्या</p> <p>(B) एक गैर-आर्थिक समस्या</p> <p>(C) एक सामाजिक समस्या</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>16. 'The Affluent Society' is written by:</p> <p>(A) J. K. Galbraith</p> <p>(B) Robbins</p> <p>(C) Eric Roll</p> <p>(D) Leftwitch</p> | <p>16. 'द एफ्लूएण्ट सोसायटी' के लेखक है :</p> <p>(A) जे० के० गैलब्रैथ</p> <p>(B) रॉबिन्स</p> <p>(C) एरिक रोल</p> <p>(D) लेफ्टविच</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>17. 'The father of welfare Economics' is :</p> <p>(A) Hicks</p> <p>(B) Kaldor</p> <p>(C) Pigou</p> <p>(D) Samuleson</p> | <p>17. 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक' कहते हैं :</p> <p>(A) हिक्स</p> <p>(B) काल्डोर</p> <p>(C) पीगू</p> <p>(D) सैम्युलसन</p> |
| <p>18. That part of general welfare which directly or indirectly measured in money terms is called :</p> <p>(A) General welfare</p> <p>(B) Social welfare</p> <p>(C) Economic welfare</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>18. सामान्य कल्याण का वह भाग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदण्ड से सम्बन्धित है, उसे कहते हैं :</p> <p>(A) सामान्य कल्याण</p> <p>(B) सामाजिक कल्याण</p> <p>(C) आर्थिक कल्याण</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |
| <p>19. The main characteristic of macro economics is :</p> <p>(A) Study of individual</p> <p>(B) Study of a group</p> <p>(C) Partial balance</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>19. व्यापक अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है :</p> <p>(A) व्यक्तिगत अध्ययन</p> <p>(B) समूह का अध्ययन</p> <p>(C) आंशिक संतुलन</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>20. The theory of macroeconomics is related to :</p> <p>(A) Economic development</p> <p>(B) Income and employment</p> <p>(C) Skilled distribution of resources</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>20. व्यापक अर्थशास्त्र का सिद्धान्त सम्बन्धित है :</p> <p>(A) आर्थिक विकास</p> <p>(B) आय एवं रोजगार</p> <p>(C) साधनों का कुशल वितरण</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>21. General price level is studied in :</p> <p>(A) Micro economics</p> <p>(B) Macro economics</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>21. सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है :</p> <p>(A) सूक्ष्म अर्थशास्त्र</p> <p>(B) व्यापक अर्थशास्त्र</p> <p>(C) दोनों (A) एवं (B)</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>22. The writer of book 'A General Theory of Employment, Interest and money' is :</p> <p>(A) K.E. Boulding</p> <p>(B) J.K. Mehta</p> <p>(C) J.M. Keynes</p> <p>(D) Quesnay</p> | <p>22. 'रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धान्त' पुस्तक के लेखक हैं :</p> <p>(A) के० ई० बोल्टिंग</p> <p>(B) जे० के० मेहता</p> <p>(C) जे० एम० कीन्स</p> <p>(D) कैंने</p> |
| <p>23. 'Macro' word is derived from the :</p> <p>(A) Latin</p> <p>(B) Greek</p> <p>(C) German</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>23. 'मैक्रो' शब्द की व्युत्पत्ति हुई है :</p> <p>(A) लैटिन</p> <p>(B) ग्रीक</p> <p>(C) जर्मन</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>24. 'The main function of macro economics is to analyze national income' this definition is of :</p> <p>(A) Chamberlin</p> <p>(B) Schultz</p> <p>(C) Shapiro</p> <p>(D) Boulding</p> | <p>24. 'व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है' यह परिभाषा है :</p> <p>(A) चैम्बरलिन</p> <p>(B) शुल्ज़</p> <p>(C) शैपिरो</p> <p>(D) बोल्टिंग</p> |

25. Net National Income according to factor cost is called :
- (A) National income
 - (B) Total disposable income
 - (C) Earned income from public sector
 - (D) Personal Income
26. 'National Income Accounting is the means of identifying and measuring aggregate economic activities'. This definition is of :
- (A) Richard Stone
 - (B) A.T. Peacock
 - (C) Franc Zohn
 - (D) Pigou
27. The difference of Net national product according to market price and net national product according to factor cost is :
- (A) Utilization of fixed capital
 - (B) Personal direct tax
 - (C) Net factor income from abroad
 - (D) Net indirect tax
25. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है :
- (A) राष्ट्रीय आय
 - (B) कुल प्रयोज्य आय
 - (C) सार्वजनिक क्षेत्र से अर्जित आय
 - (D) वैयक्तिक आय
26. 'राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा एवं मापा जाता है।' यह परिभाषा है :
- (A) रिचर्ड स्टोन
 - (B) ए०टी० पीकॉक
 - (C) फ्रेंक जॉन
 - (D) पीगू
27. बजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है :
- (A) स्थिर पूंजी के उपयोग का
 - (B) वैयक्तिक प्रत्यक्ष कर का
 - (C) विदेशों से प्राप्त शुद्ध लागत आय का
 - (D) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का

28. The total monetary price (at market price) of all final commodities produced in the durations of one year in any country is called :
- (A) Personal Income
(B) Net National Product
(C) National Income
(D) Gross Domestic Product
29. Which statement is correct :
- (A) Net domestic Product = GDP – Depreciations
(B) NDP = GDP + Depreciation
(C) NDP = GDP + Direct tax
(D) None of these
30. The methods of measuring National Income are :
- (A) Value – added method
(B) Income method
(C) Expenditure method
(D) All of the above
31. Following formula is used for finding out value added :
- (A) Purchase Price + Profit
(B) Sale price - Loss
(C) Purchase price + Intermediary cost
(D) Sale price – Intermediary cost
28. किस देश की एक वर्ष में उत्पादित बाजार कीमत पर सभी अंतिम वस्तुओं की कुल मौद्रिक कीमत को कहते हैं :
- (A) वैयक्तिक आय
(B) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
(C) राष्ट्रीय आय
(D) सकल घरेलू उत्पाद
29. कौन-सा कथन सत्य है :
- (A) शुद्ध घरेलू उत्पाद = GDP – ह्रास
(B) NDP = GDP + ह्रास
(C) NDP = GDP + प्रत्यक्षकर
(D) इनमें से कोई नहीं
30. राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां हैं :
- (A) मूल्य-वृद्धि रीति
(B) आय गणना रीति
(C) व्यय गणना रीति
(D) उपरोक्त सभी
31. मूल्य-वृद्धि को ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित सूच का प्रयोग किया जाता है :
- (A) खरीद मूल्य + लाभ
(B) बिक्री मूल्य – हानि
(C) खरीद कीमत + मध्यवर्ती लागतें
(D) बिक्री मूल्य – मध्यवर्ती लागतें

- | | |
|--|---|
| <p>32. The product method includes :</p> <p>(A) Total initial product</p> <p>(B) Total intermediary product</p> <p>(C) Total final product</p> <p>(D) None of these</p> | <p>32. उत्पादन संगणना विधि में शामिल है :</p> <p>(A) कुल आंतरिक उत्पादन</p> <p>(B) कुल मध्यवर्ती उत्पादन</p> <p>(C) कुल अंतिम उत्पादन</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>33. 'Supply creates its own demand' this statement is of :</p> <p>(A) Ricardo</p> <p>(B) J. S. Mill</p> <p>(C) J. B. Say</p> <p>(D) None of these</p> | <p>33. 'पूर्ति अपनी मांग स्वतः सृजित करती है' यह कथन है :</p> <p>(A) रिकार्डो</p> <p>(B) जे० एस० मिल</p> <p>(C) जे० बी० से</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>34. 'Say's market Law' is concerned with :</p> <p>(A) Long term</p> <p>(B) Short term</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of above</p> | <p>34. 'से का बाजार नियम' सम्बन्धित है :</p> <p>(A) दीर्घ काल</p> <p>(B) अल्पकाल</p> <p>(C) दोनों (A) एवं (B)</p> <p>(D) उपरोक्त कोई नहीं</p> |
| <p>35. According to classical theory of employment there are some ways to remove unemployment from economy :</p> <p>(A) Change in wage rate</p> <p>(B) Change in prices</p> <p>(C) Change in interest rate</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>35. रोजगार के क्लासिकल सिद्धान्त के अनुसार अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी को दूर करने हेतु उपाय है :</p> <p>(A) मजदूरी दरों में परिवर्तन</p> <p>(B) कीमतों में परिवर्तन</p> <p>(C) ब्याज दरों में परिवर्तन</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

36. $W = P \times MPP_L$ – this equation expresses :

- (A) Demand function
- (B) Supply function
- (C) Wage function
- (D) Real wages

37. Money level is determined by the Quantity of money' this statement is of :

- (A) Marshal
- (B) Pigou
- (C) Fisher
- (D) Edgeworth

38. Classical Theory of employment depends on :

- (A) Non- interference policy of Government
- (B) Protection policy
- (C) Trade policy
- (D) Industrial policy

36. $W = P \times MPP_L$ –समीकरण व्यक्त करता है :

- (A) मांग प्रकार्य
- (B) पूर्ति प्रकार्य
- (C) मजदूरी प्रकार्य
- (D) वास्तविक मजदूरी

37. 'मूल्यस्तर, मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है' यह कथन है :

- (A) मार्शल
- (B) पीगू
- (C) फिशर
- (D) एजवर्थ

38. रोजगार का क्लासिकल सिद्धान्त निर्भर करता है :

- (A) सरकार की अहस्तक्षेपपूर्ण नीति
- (B) संरक्षण नीति
- (C) व्यापारिक नीति
- (D) औद्योगिक नीति

- | | |
|--|--|
| <p>39. Keynesian theory of employment is propounded in the year.</p> <p>(A) 1938</p> <p>(B) 1936</p> <p>(C) 1939</p> <p>(D) 1937</p> | <p>39. कीन्स के रोजगार सिद्धान्त का प्रतिपादन निम्न वर्ष में हुआ :</p> <p>(A) 1938</p> <p>(B) 1936</p> <p>(C) 1939</p> <p>(D) 1937</p> |
| <p>40. In $Y = f(N)$, Y indicates :</p> <p>(A) National Product</p> <p>(B) National Investment</p> <p>(C) Net National Product</p> <p>(D) Net National Investment</p> | <p>40. $Y = f(N)$ में Y संकेत करता है :</p> <p>(A) राष्ट्रीय उत्पाद</p> <p>(B) राष्ट्रीय निवेश</p> <p>(C) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद</p> <p>(D) शुद्ध राष्ट्रीय निवेश</p> |
| <p>41. According to Keynes, the level of employment depends on :</p> <p>(A) Effective Supply</p> <p>(B) Effective Demand</p> <p>(C) Quantity of Investment</p> <p>(D) Level of consumption</p> | <p>41. कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है :</p> <p>(A) प्रभावपूर्ण पूर्ति</p> <p>(B) प्रभावपूर्ण मांग</p> <p>(C) विनियोग की मात्रा</p> <p>(D) उपभोग स्तर पर</p> |

42. According to Keynes, Aggregate demand depends on :

- (A) Consumption expenditure
- (B) Investment expenditure
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of these

43. To measure the marginal propensity to consume the formula is used :

- (A) $\frac{C}{Y}$
- (B) $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$
- (C) $\frac{Y}{C}$
- (D) $\frac{\Delta Y}{\Delta C}$

44. According to Keynes aggregate supply in short run :

- (A) Increases
- (B) Decreases
- (C) Remains stable
- (D) None of these

42. कीन्स के अनुसार समग्र मांग निर्भर करती है :

- (A) उपभोग व्यय
- (B) विनियोग व्यय
- (C) दोनों (A) और (B)
- (D) इनमें से कोई नहीं

43. उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के मापन का सूत्र है :

- (A) $\frac{C}{Y}$
- (B) $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$
- (C) $\frac{Y}{C}$
- (D) $\frac{\Delta Y}{\Delta C}$

44. कीन्स के अनुसार अल्पकाल में समग्र पूर्ति :

- (A) बढ़ती है
- (B) घटती है
- (C) स्थिर रहती है
- (D) इनमें से कोई नहीं

45. MPC decreases with increase in income ' this statement is :
- (A) True
(B) False
(C) Both (A) & (B) true
(D) Both (A) & (B) False
46. 'Consumption can be called negative production' is statement of :
- (A) Mayers
(B) Ely
(C) Marshal
(D) Shapiro
47. Marginal efficiency of capital depend on :
- (A) Prospective yield of capital asset
(B) Supply price of capital asset
(C) Both of the above
(D) None of the above
45. आय में वृद्धि के साथ-साथ MPC घटती हैं। यह कथन है :
- (A) सत्य है
(B) असत्य है
(C) दोनों (A) एवं (B) सही है
(D) दोनों (A) एवं (B) गलत है
46. 'उपभोग को ऋणात्मक उत्पादन कह सकते हैं। यह कथन है :
- (A) मेयर्स
(B) ऐली
(C) मार्शल
(D) शैपिरो
47. पूंजी की सीमांत उत्पादकता निर्भर करती है :
- (A) पूंजीगत साधन की प्रत्याशित आय
(B) पूंजीगत साधन का पूर्ति मूल्य
(C) उपर्युक्त दोनों
(D) उपर्युक्त में कोई नहीं

48. Main measures to stimulate investment are :

- (A) Control on monopolistic attitude
- (B) Pump – priming policy
- (C) Leaf Reeking
- (D) All of the above

49. According to Keynes inducement to investment depends on :

- (A) Marginal efficiency of capital
- (B) Rate of Interest
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of these

50. Keynes's theory of Interest is known by which name ?

- (A) Hanson – Hicks Interest theory
- (B) Neo – preference theory of Interest
- (C) Liquidity preference theory
- (D) Ultimate productivity theory

48. विनियोग को प्रोत्साहित करने के मुख्य उपाय हैं :

- (A) एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण
- (B) समुद्दीपन विधि
- (C) लीफ रीकिंग
- (D) उपरोक्त सभी

49. कीन्स के अनुसार विनियोग प्रवृत्ति निर्भर करती है :

- (A) पूंजी की सीमांत क्षमता
- (B) ब्याज दर
- (C) दोनों (A) एवं (B)
- (D) इनमें से कोई नहीं

50. कीन्स के ब्याज के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ?

- (A) हैन्सन हिक्स का ब्याज का सिद्धांत
- (B) नव-पसंदगी ब्याज का सिद्धांत
- (C) तरलता पसंदगी का सिद्धांत
- (D) अत्युत्पादकता का सिद्धांत

- | | |
|---|---|
| <p>51. The economic system in India is related to :</p> <p>(A) Mixed economy</p> <p>(B) Non-mixed economy</p> <p>(C) Both (A)&(B)</p> <p>(D) None of these</p> | <p>51. भारत में आर्थिक प्रणाली प्रचलित है :</p> <p>(A) मिश्रित अर्थव्यवस्था</p> <p>(B) अमिश्रित अर्थव्यवस्था</p> <p>(C) दोनों (A) एवं (B)</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>52. Production possibility curve will be to the point of origin :</p> <p>(A) Convex</p> <p>(B) Concave</p> <p>(C) Straight line</p> <p>(D) None of these</p> | <p>52. उत्पादन संभावना वक्र मूल बिन्दु की ओर होता है :</p> <p>(A) उन्नतोदर</p> <p>(B) नतोदर</p> <p>(C) सीधी रेखा</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>53. Opportunity cost may be called :</p> <p>(A) Alternative cost</p> <p>(B) Displaced cost</p> <p>(C) Transfer Income</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>53. अवसर लागत को कहते हैं :</p> <p>(A) वैकल्पिक लागत</p> <p>(B) विस्थापित लागत</p> <p>(C) हस्तांतरण आय</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>54. "The amount of money which any particular unit could earn in its best paid alternative use, is sometimes called its transfer earning". This definition is of :</p> <p>(A) Smt. John Robinson</p> <p>(B) Benham</p> <p>(C) Marshal</p> <p>(D) Stigler</p> | <p>54. "मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे ही हस्तांतरण आय कहते हैं।" यह परिभाषा है :</p> <p>(A) श्रीमती जॉन रॉबिन्सन</p> <p>(B) बेन्हम</p> <p>(C) मार्शल</p> <p>(D) स्टिगलर</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>55. Analysis of an industry fall under :</p> <p>(A) Micro Economics</p> <p>(B) Macro Economics</p> <p>(C) Both (A) &(B)</p> <p>(D) None of these</p> | <p>55. एक उद्योग का विश्लेषण किया जायेगा :</p> <p>(A) सूक्ष्म अर्थशास्त्र में</p> <p>(B) व्यापक अर्थशास्त्र में</p> <p>(C) दोनों (A) एवं (B)में</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>56. The mother of central economic problems are :</p> <p>(A) Unlimited wants</p> <p>(B) Alternative uses of resources</p> <p>(C) Scarcity</p> <p>(D) None of these</p> | <p>56. केन्द्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है :</p> <p>(A) असीमित आवश्यकतायें</p> <p>(B) साधनों का वैकल्पिक प्रयोग</p> <p>(C) दुर्लभता</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>57. In Economics definitions related to welfare are given by :</p> <p>(A) Adam Smith</p> <p>(B) Robbins</p> <p>(C) J.K. Mehta</p> <p>(D) Marshal & Pigou</p> | <p>57. अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषायें दी गई :</p> <p>(A) एडम स्मिथ द्वारा</p> <p>(B) रॉबिन्स द्वारा</p> <p>(C) जे०के० मेहता द्वारा</p> <p>(D) मार्शल एवं पीगू द्वारा</p> |
| <p>58. 'What ought to be' is related with :</p> <p>(A) Positive science</p> <p>(B) Art</p> <p>(C) Normative Science</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>58. 'क्या होना चाहिये' सम्बन्धित है :</p> <p>(A) वास्तविक विज्ञान</p> <p>(B) कला</p> <p>(C) आदर्श विज्ञान</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |

59. Who embraces the concept of limited resources and unlimited ends in economics ?

- (A) Marshal
- (B) Adam Smith
- (C) Pigou
- (D) Robbins

60. 'An Essay on the nature and significance of Economic Science' is written by :

- (A) J.M. Keynes
- (B) Marshal
- (C) Robbins
- (D) S. P. Thompson

61. The nature of Economics is :

- (A) Science
- (B) Art
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of these

62. The father of Economics is :

- (A) Benham
- (B) Pigou
- (C) Keynes
- (D) Adam Smith

59. अर्थशास्त्र में सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया ?

- (A) मार्शल
- (B) एडम स्मिथ
- (C) पीगू
- (D) रॉबिन्स

60. 'आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्त्व पर एक निबन्ध' पुस्तक लिखी गई है :

- (A) जे० एम० कीन्स
- (B) मार्शल
- (C) रॉबिन्स
- (D) एस०पी० थॉमसन

61. अर्थशास्त्र की प्रकृति है :

- (A) विज्ञान
- (B) कला
- (C) दोनों (A) एवं (B)
- (D) इनमें से कोई नहीं

62. अर्थशास्त्र के जनक हैं :

- (A) बेन्हम
- (B) पीगू
- (C) कीन्स
- (D) एडम स्मिथ

63. The central problems of any economy are :

- (A) What to produce
- (B) How to produce
- (C) For whom to produce
- (D) All of the above

64. Marginal opportunity cost is :

- (A) $\frac{y}{x}$
- (B) $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
- (C) $\frac{\Delta y}{x}$
- (D) $\frac{\Delta x}{y}$

65. Demand curve is :

- (A) Average Revenue curve
- (B) Marginal Revenue curve
- (C) Total Revenue curve
- (D) None of these

66. Demand of which type of goods are directly related to income :

- (A) Compulsory goods
- (B) Comfortable goods
- (C) Luxury goods
- (D) All of the above

63. किसी अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएँ हैं :

- (A) क्या उत्पादित किया जाये
- (B) कैसे उत्पादित किया जाये
- (C) किसके लिए उत्पादन किया जाये
- (D) उपरोक्त सभी

64. सीमांत अवसर लागत है :

- (A) $\frac{y}{x}$
- (B) $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
- (C) $\frac{\Delta y}{x}$
- (D) $\frac{\Delta x}{y}$

65. मांग वक्र होता है :

- (A) औसत आगम वक्र
- (B) सीमांत आगम वक्र
- (C) कुल आगम वक्र
- (D) इनमें से कोई नहीं

66. किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होती है :

- (A) अनिवार्य वस्तुयें
- (B) आरामदायक वस्तुयें
- (C) विलासिता की वस्तुयें
- (D) उपरोक्त सभी

67. The determinant factors of the demand of a commodity are said :
- (A) Dependent Variables
(B) Independent Variables
(C) Proportionate Variables
(D) Constants
68. Denned demand is concerned with :
- (A) Consumers
(B) Products
(C) Government
(D) All of the above
69. The demand of which type of goods does not increase after decreasing the price of those ?
- (A) Comfortable goods
(B) Prestige goods
(C) Giffin goods
(D) Compulsory goods
70. 'Economics is the Science of wealth'. This Statement is of :
- (A) Jevans
(B) Walker
(C) Adam Smith
(D) Ricardo
67. एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले कारकों को कहते हैं :
- (A) परतंत्र चर
(B) स्वतंत्र चर
(C) आनुपातिक चर
(D) स्थिरांक
68. व्युत्पन्न मांग सम्बन्धित है :
- (A) उपभोक्ताओं से
(B) उत्पादों से
(C) सरकार से
(D) उपरोक्त सभी
69. किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है ?
- (A) आरामदायक वस्तुयें
(B) प्रतिष्ठाक्षक वस्तुयें
(C) गिफिन वस्तुयें
(D) अनिवार्य वस्तुयें
70. 'अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।' यह कथन है :
- (A) जेवन्स
(B) वाकर
(C) एडम स्मिथ
(D) रिकार्डो

71. Tea and coffee in example of :

- (A) Derived demand
- (B) Complementary demand
- (C) Substitution demand
- (D) Cross demand

72. In contraction and expansion of demand :

- (A) Demand curve remains unchanged
- (B) Demand curve changes
- (C) Slope of demand curve changes
- (D) All of the above

73. 'Supply may mean also the amount offered for sale per unit of time' this statement in of :

- (A) Lipsey
- (B) Mayer
- (C) Benham
- (D) Mill

71. चाय और कॉफी किस प्रकार की मांग का उदाहरण है :

- (A) व्युत्पन्न मांग
- (B) पूरक मांग
- (C) स्थानापन्न मांग
- (D) आड़ी मांग

72. मांग के संकुचन एवं विस्तार में :

- (A) मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है
- (B) मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है
- (C) मांग वक्र का ढाल बदल जाता है
- (D) उपरोक्त सभी

73. 'पूर्ति का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जो प्रति समय इकाई में बिक्री के लिये उपलब्ध है।' यह कथन है:

- (A) लिप्से
- (B) मेयर
- (C) बेन्हम
- (D) मिल

74. Price elasticity of demand means :
- Change in price
 - Change in demand
 - Change in real income
 - Change in demand because of change in price
75. $E_d=0$ means elasticity of demand :
- Perfectly inelastic
 - Perfectly elastic
 - Unitary elastic
 - Less than unitary elastic
76. Income elasticity of demand can be measured by :
- $\frac{\Delta q}{\Delta y} \times \frac{y}{q}$
 - $\frac{\Delta q}{\Delta y} \times \frac{\Delta y}{\Delta q}$
 - $\frac{\Delta y}{\Delta q} \times \frac{q}{y}$
 - $\frac{\Delta y}{\Delta q} \times \frac{y}{q}$
77. Elasticity of demand for luxury good is :
- Perfectly elastic
 - Highly inelastic
 - Highly elastic
 - Unitary elastic
74. मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है :
- कीमत में परिवर्तन
 - मांग में परिवर्तन
 - वास्तविक आय में परिवर्तन
 - कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन
75. $E_d=0$ का अर्थ है कि मांग की लोच :
- पूर्णतः बेलोचदार है
 - पूर्णतः लोचदार है
 - इकाई के बराबर है
 - इकाई से कम है
76. मांग की आय लोच को निम्न सूत्र से मापा जा सकता है :
- $\frac{\Delta q}{\Delta y} \times \frac{y}{q}$
 - $\frac{\Delta q}{\Delta y} \times \frac{\Delta y}{\Delta q}$
 - $\frac{\Delta y}{\Delta q} \times \frac{q}{y}$
 - $\frac{\Delta y}{\Delta q} \times \frac{y}{q}$
77. विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग की लोच होती है :
- पूर्णतया लोचदार
 - अत्यधिक बेलोचदार
 - अत्यधिक लोचदार
 - इकाई लोचदार

78. The propounder of Equi-marginal Utility theory was :

- (A) Marshal
- (B) Chapman
- (C) Gosen
- (D) Cairncross

79. Marginal Utility can be measured by :

- (A) $TU_n - TU_{n-1}$
- (B) $TU_n + TU_{n-1}$
- (C) $TU_n + TU_{n+1}$
- (D) None of these

80. If Indifference curve is convex to the origin point, then Marginal Rate of Substitution (MRS) will be:

- (A) Increasing
- (B) Decreasing
- (C) Stable
- (D) None of these

81. Indifference curve analysis was done firstly in 1881 by :

- (A) Hicks
- (B) Edgeworth
- (C) Mayers
- (D) Pareto

78. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे :

- (A) मार्शल
- (B) चैपमैन
- (C) गोसेन
- (D) केयर्नक्रॉस

79. सीमांत उपयोगिता का मापन किया जा सकता है :

- (A) $TU_n - TU_{n-1}$
- (B) $TU_n + TU_{n-1}$
- (C) $TU_n + TU_{n+1}$
- (D) इनमें से कोई नहीं

80. यदि तटस्थता वक्र मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर(MRS) होगी :

- (A) बढ़ती हुई
- (B) घटती हुई
- (C) स्थिर
- (D) इनमें से कोई नहीं

81. तटस्थता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया :

- (A) हिक्स के द्वारा
- (B) एजवर्थ के द्वारा
- (C) मेयर्स के द्वारा
- (D) पैरेटो के द्वारा

82. The production function means :
(A) Way of increasing the production
(B) Expansion of production factors
(C) Relationship between production and production factors
(D) Diminishing marginal utility

83. Law of variable proportion relates to :
(A) Short term
(B) Long term
(C) Both (A) & (B)
(D) None of these

84. Law of Diminishing Returns applies on :
(A) Only industries
(B) Only agricultural activities
(C) Every economic activity after a certain limit
(D) None of these

82. उत्पादन फलन से अभिप्राय है :
(A) उत्पादन के बढ़ने के तरीके से
(B) उत्पत्ति के साधनों का विस्तार
(C) साधन एवं उत्पादन की मात्रा के बीच सम्बन्ध
(D) सीमांत उपयोगिता का ह्रास

83. परिवर्तनशील अनुपात के नियम का सम्बन्ध होता है :
(A) अल्पकाल से
(B) दीर्घकाल से
(C) दोनों (A) एवं (B)
(D) इनमें से कोई नहीं

84. ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है :
(A) केवल उद्योगों पर
(B) केवल कृषिगत क्रियाओं पर
(C) एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर
(D) इनमें से कोई नहीं

85. Tick the right in following :

- (A) $TVC = TC + TFC$
- (B) $TFC = TVC + TC$
- (C) $TC = TVC + TFC$
- (D) $TC = TVC \times TFC$

86. With increment of production, the difference between total cost and total fixed cost :

- (A) Increases
- (B) Decreases
- (C) Remains Stable
- (D) Fluctuates

87. Which is right in the following :

- (A) $AR = \frac{P \times Q}{Q}$
- (B) $AR = \frac{P \times Q}{P}$
- (C) $AR = P \times Q$
- (D) $AR = \frac{Q}{P \times Q}$

88. A net income earned by an extra unit is said :

- (A) Extra income
- (B) Marginal income
- (C) Average income
- (D) Monetary income

85. निम्न में सही अंकित कीजिये :

- (A) $TVC = TC + TFC$
- (B) $TFC = TVC + TC$
- (C) $TC = TVC + TFC$
- (D) $TC = TVC \times TFC$

86. उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर :

- (A) बढ़ता जाता है
- (B) घटता जाता है
- (C) स्थिर रहता है
- (D) घटता-बढ़ता रहता है

87. निम्नलिखित में कौन-सा सही है :

- (A) $AR = \frac{P \times Q}{Q}$
- (B) $AR = \frac{P \times Q}{P}$
- (C) $AR = P \times Q$
- (D) $AR = \frac{Q}{P \times Q}$

88. एकअतिरिक्त इकाई से अर्जित शुद्ध आय को कहते हैं :

- (A) अतिरिक्त आय
- (B) सीमांत आय
- (C) औसत आय
- (D) मौद्रिक आय

89. The concept of Paretian optimality is based on :
- (A) Ordinal Utility Theory
(B) Cardinal Utility Theory
(C) Both (A) & (B)
(D) None of these
90. External economics are attained by:
- (A) An only firm
(B) Many firms
(C) A small producer
(D) None of these
91. In oligopoly, number of producers is :
- (A) Only one
(B) Two producers
(C) A few producers
(D) Many producers
92. The equilibrium of a firm occurs when :
- (A) $AR = MR$
(B) $MC = MR$
(C) $AC = AR$
(D) None of these
89. पैरेटो अनुकूलतम की अवधारणा आधारित है :
- (A) क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धान्त
(B) गणनावाचक उपयोगिता सिद्धान्त
(C) दोनों (A) एवं (B)
(D) इनमें से कोई नहीं
90. बाह्यबचतें प्राप्त होती है :
- (A) एक फर्म को
(B) बहुत सी फर्मों को
(C) छोटे उत्पादक को
(D) इनमें से कोई नहीं
91. अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है :
- (A) एक
(B) दो
(C) कुछ या थोड़े
(D) बहुत
92. एक फर्म संतुलन की स्थिति में होगी जबकि :
- (A) $AR = MR$
(B) $MC = MR$
(C) $AC = AR$
(D) इनमें से कोई नहीं

- | | |
|---|--|
| <p>93. Under perfect competition, elasticity of demand of a firm is :</p> <p>(A) Perfectly elastic</p> <p>(B) Perfectly inelastic</p> <p>(C) Less elastic</p> <p>(D) Highly elastic</p> | <p>93. पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एक फर्म की मांग की लोच होगी :</p> <p>(A) पूर्णतया लोचदार</p> <p>(B) पूर्णतया बेलोचदार</p> <p>(C) बेलोचदार</p> <p>(D) अत्यधिक लोचदार</p> |
| <p>94. In long run, a perfect competitive firm earns:</p> <p>(A) Normal profit</p> <p>(B) Supernormal profit</p> <p>(C) Loss</p> <p>(D) No profit no loss</p> | <p>94. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकाल में एक फर्म को प्राप्त होता है :</p> <p>(A) सामान्य लाभ</p> <p>(B) सामान्य से अधिक लाभ</p> <p>(C) हानि</p> <p>(D) न लाभ न हानि</p> |
| <p>95. In perfect competition price is determined by :</p> <p>(A) Representative firm</p> <p>(B) Government</p> <p>(C) Industry</p> <p>(D) General Firm</p> | <p>95. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है :</p> <p>(A) प्रतिनिधि फर्म</p> <p>(B) सरकार</p> <p>(C) उद्योग</p> <p>(D) साधारण फर्म</p> |
| <p>96. Price discrimination is possible in:</p> <p>(A) In monopoly</p> <p>(B) Perfect competition</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) Neither (A) nor (B)</p> | <p>96. कीमत विभेद संभव है :</p> <p>(A) एकाधिकार में</p> <p>(B) पूर्ण प्रतियोगिता</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) न (A) और न ही (B)</p> |

97. Perfect knowledge of a market is a characteristic of :
- (A) Imperfect competition
(B) Perfect competition
(C) Both (A) & (B)
(D) None of these
98. In a perfect competition, the Average Revenue curve is :
- (A) Parallel to y-axis
(B) Parallel to x-axis
(C) Slopes downward from left to right
(D) Slopes downward from right to left
99. Number of producers in imperfect competition is :
- (A) Unlimited
(B) Limited
(C) Less
(D) More
100. In which type of market consumers are attracted through advertisements :
- (A) Monopoly
(B) Monopolistic competition
(C) Perfect competition
(D) Imperfect competition
97. 'बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान' यह विशेषता है:
- (A) अपूर्ण प्रतियोगिता
(B) पूर्ण प्रतियोगिता
(C) दोनों (A) एवं (B)
(D) इनमें से कोई नहीं
98. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत औसत आय वक्र होता है :
- (A) y-axis के समानान्तर
(B) x-axis के समानान्तर
(C) बायें से दायें नीचे की ओर गिरता हुआ
(D) दायें से बायें नीचे की ओर गिरता हुआ
99. अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादकों की संख्या होती है :
- (A) असीमित
(B) सीमित
(C) कम
(D) ज्यादा
100. किस प्रकार के बाजार में उपभोक्ताओं को विज्ञापन के माध्यम से आकर्षित किया जाता है:
- (A) एकाधिकार
(B) एकाधिकृत प्रतियोगिता
(C) पूर्ण प्रतियोगिता
(D) अपूर्ण प्रतियोगिता

Rough Work / रफ कार्य

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.